

न्यूयॉर्क राज्य

कोविड-19 वैश्विक महामारी लघु व्यवसाय पुनरुत्थान अनुदान कार्यक्रम



Powered by
lendistry

कार्यक्रम एवं आवेदन मार्गदर्शिका

(संशो. 07.22.22)



विषय-सूची

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण	3
आवश्यक प्रलेखन का उदाहरण	15
आवेदन करने के लिए युक्तियां	24
आवेदन	32
आवेदन की स्थितियां पोर्टल में	43
दस्तावेज़ों को अपलोड करना	46
आवेदक प्रमाणन	49
अपनी बैंक जानकारी को लिंक करना	53



Empire State
Development

Powered by
lendistry

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण



Empire State
Development

Powered by
lendistry

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

परिचय

न्यूयॉर्क राज्य कोविड-19 वैश्विक महामारी लघु व्यवसाय पुनरुत्थान अनुदान कार्यक्रम (“कार्यक्रम”) न्यूयॉर्क राज्य में वर्तमान में व्यवहार्य ऐसे लघु व्यवसायों, सक्षम व्यवसायों और लाभकारी स्वतंत्र कला एवं सांस्कृतिक संगठनों को लचीली अनदान सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक कठिनाई का अनुभव किया है।

न्यूयॉर्क राज्य कोविड-19 वैश्विक महामारी लघु व्यवसाय पुनरुत्थान अनुदान कार्यक्रम संबंधी और अधिक जानकारी के लिए, एवं आवेदन करने में सहायता प्राप्त करने के लिए, कृपया

www.nysmallbusinessrecovery.com देखें।

अनुदान राशि

अनुदान देने के निर्णयों की गणना, वर्ष 2019* के लिए व्यवसाय की वार्षिक सकल प्राप्तियों के आधार पर की जाएगी:

वार्षिक सकल प्राप्तियां (2019)	अनुदान राशि
\$25,000-\$49,999	\$5,000 प्रति व्यवसाय
\$50,000-\$99,999	\$10,000 प्रति व्यवसाय
\$100,000-\$2,500,000	सकल प्राप्तियों का 10% (\$50,000 तक)

*“सकल प्राप्तियां” किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं, इस बाबत और अधिक जानकारी के लिए कृपया स्लाईड 5 देखें।

अनुदान राशियां और गणना, एम्पायर स्टेट डेवलपमेंट द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन के अधीन हैं



Empire State
Development

Powered by
lendistry

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

परिभाषाएं

1. "लघु व्यवसाय" का अर्थ एक ऐसा व्यवसाय होगा जो न्यूयॉर्क राज्य का निवासी है, न्यूयॉर्क राज्य में निगमित है या न्यूयॉर्क राज्य में व्यापार करने के लिए लाइसेन्स-प्राप्त या पंजीकृत है, स्वतंत्र स्वामित्व में है और संचालित किया जाता है, अपने क्षेत्र में प्रबल नहीं है, और इसमें सौ (100) या इससे कम कर्मचारी हैं।

2. "सूक्ष्म व्यवसाय" का अर्थ एक ऐसा व्यवसाय होगा जो न्यूयॉर्क राज्य का निवासी है, न्यूयॉर्क राज्य में निगमित है या न्यूयॉर्क राज्य में व्यापार करने के लिए लाइसेन्स-प्राप्त या पंजीकृत है, स्वतंत्र स्वामित्व में है और संचालित किया जाता है, अपने क्षेत्र में प्रबल नहीं है, और दस (10) या इससे कम लोगों को नियोजित करता है।

3. "लाभकारी स्वतंत्र कला एवं सांस्कृतिक संगठन" का अर्थ न्यूयॉर्क राज्य में एक लघु या मध्यम आकार का निजी लाभकारी, स्वतंत्र रूप से संचालित जीवन्त-साक्षात् प्रदर्शन स्थल, प्रमोटर, प्रोडक्शन कंपनी, या प्रदर्शन-संबंधित व्यवसाय होगा जो कोविड-19 की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आचार संहिता से नकारात्मक रूप में प्रभावित है, और जिसमें सामयिक कर्मचारियों को छोड़कर, सौ (100) या इससे कम पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। इस परिभाषा के अन्तर्गत पात्र संगठनों में; वास्तुकला, नृत्य, डिजाइन (अभिकल्प), फ़िल्म, संगीत, रंगमच, ऑपेरा, मीडिया, साहित्य, संग्रहालय क्रियाकलाप, दृश्य कला, लोक कला और कास्टिंग के क्षेत्रों में प्रवत व्यवसाय सम्मिलित हो सकते हैं, किन्तु इतना ही सीमित नहीं है।
4. "कोविड-19 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आचार संहिता" का अर्थ, कोविड-19 वैश्विक महामारी की प्रतिक्रिया में गर्वनर के वर्ष 2020 के कार्यकारी आदेश 202, या जारी किए गए किसी भी विस्तारण या अनुवर्ती कार्यकारी आदेश द्वारा लगाए कोई भी प्रतिबन्ध, अथवा कोविड-19 की प्रतिक्रिया में किसी भी अन्य विधान, नियम, विनियमन द्वारा व्यापारों के संचालन पर लगाये गए प्रतिबन्ध हैं।



कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

पात्र लघु व्यवसाय की योग्यताएं

- लघु व्यवसाय, सूक्ष्म-व्यवसाय और लाभकारी स्वतंत्र कला एवं सास्कृतिक संगठन (सामूहिक रूप से, "योग्य आवेदक") जो वर्तमान में व्यवहार्य होने चाहिए और जिन्होंने मार्च 1, 2019 को या उससे पहले संचालन आरंभ किया हो और आवेदन की तिथि तक संचालन जारी रखते हों (कोविड-19 प्रतिबन्धों के कारण बंद किए जा सकते हैं)।
 - "व्यवहार्यता" का निर्धारण इस आधार पर किया जाना है कि आवेदक का वर्ष 2019 में सकारात्मक शुद्ध लाभ है अथवा नहीं है, जैसा कि आवेदक के वर्ष 2019 के संघीय टैक्स रिटर्न (नीचे देखें) पर प्रतिवेदित शुद्ध लाभ से प्रमाणित होता हो।
- पात्र आवेदकों से कोविड-19 वैश्विक महामारी अथवा कोविड-19 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आचार संहिता के अनुपालन के परिणामस्वरूप सकल प्राप्तियाँ की ऐसी हानि को दर्शाना अपेक्षित होगा, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय में संशोधन, रुकावटें हुई हों या बंद हो गए हों।



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

पात्र लघु व्यवसाय की योग्यताएं (जारी)

- लघु व्यवसायों और सूक्ष्म व्यवसायों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
 - वर्ष 2019 या 2020 की सकल प्राप्तियां प्रति वर्ष \$25,000 और \$2,500,000 के बीच होनी चाहिए जैसा कि आवेदक की फाइल की गई संघीय टैक्स रिटर्न पर प्रदर्शित हो
 - पंक्ति 1a, IRS फॉर्म 1120 या 1065;
 - पंक्ति 1, IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल C; या
 - पंक्ति 1a + पंक्ति 2 का योग, IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल F

- दिसंबर 31, 2020 की तिथि पर वर्ष-प्रति-वर्ष के राजस्व की तुलना में, वर्ष 2019 की समान अवधि के लिए, वार्षिक सकल प्राप्तियों में कम से कम पच्चीस प्रतिशत (25%) हानि प्रदर्शित करते हों, प्रत्येक मामले में, जैसा कि आवेदक के 2019 और 2020 की फाइल की गई संघीय टैक्स रिटर्न पर प्रदर्शित हो, जिसमें एनवाईएस श्रम विभाग द्वारा सत्यापित कोई भी 2020 महामारी बेरोजगारी सहायता (PUA), संघीय महामारी बेरोजगारी मुआवजा और/या खोई हुई मजदूरी सहायता शामिल हों।
 - हानि की गणना वर्ष 2019 के संघीय टैक्स रिटर्न पर प्रतिवेदित IRS फॉर्म 1120 या 1065 पर पंक्ति 1a, IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल C पर पंक्ति 1, या IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल F पर पंक्ति 1a + पंक्ति 2 का योग और वर्ष 2020 के संघीय टैक्स रिटर्न पर प्रतिवेदित IRS फॉर्म 1120 या 1065 पर पंक्ति 1a, IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल C पर पंक्ति 1, या IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल F पर पंक्ति 1a + पंक्ति 2 का योग के बीच के अन्तर (शेष-भाग) के आधार पर की जाएगी (समान अवधि को कवर करने वाले प्रत्येक मामले में)। परिगणित मूल्य में वर्ष-प्रति-वर्ष 25% की कमी दिखाई देनी चाहिए। वर्ष 2019 में आंशिक कर वर्ष वाले व्यवसाय, वर्ष 2020 में महीनों की तुलनीय संख्या के आधार पर 25% हानि की गणना करेंगे।



कैसे % हानि की गणना करें (उदाहरण)

% हानि गणना बगैर महामारी बेरोजगारी सहायता (उदाहरण)

वर्ष 2019 के लिए वार्षिक सकल प्राप्तियां = \$1,000,000

वर्ष 2020 के लिए वार्षिक सकल प्राप्तियां = \$750,000

पूरी हानि: 25%

परिणाम: अनुदान के लिए पात्र

% हानि गणना के साथ महामारी बेरोजगारी सहायता (उदाहरण)

वर्ष 2019 के लिए वार्षिक सकल प्राप्तियां = \$1,000,000

वर्ष 2020 के लिए वार्षिक सकल प्राप्तियां = \$750,000

महामारी बेरोजगारी सहायता जो 2020 में भुगतान की गई = \$10,000

वर्ष 2020 + PUA 2020 के लिए वार्षिक सकल प्राप्तियां = \$760,000

पूरी हानि: 24%

परिणाम: अब अनुदान के लिए बिलकुल पात्र नहीं हैं



Empire State
Development

Powered by
lendistry

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

पात्र लघु व्यवसाय की योग्यताएं (जारी)

4. प्रदर्शित करते हों कि वर्ष 2020 के व्यावसायिक आय रिटर्न पर कुल व्यय, अनुदान राशि से अधिक है।
 - कुल व्यय गणना विरुद्ध प्रस्तावित अनुदान राशि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020 के संघीय टैक्स रिटर्न पर प्रतिवेदित व्यावसायिक व्यय पर आधारित होगी।
5. लागू संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों, विनियमों, संहिताओं और अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन करते हों।
6. जुलाई 15, 2020 के पूर्व का कोई भी संघीय, राज्य, या स्थानीय कर की देनदारी न हो, जबतक यह आपके पास अनुमोदित चुकौती योजना, आस्थगित योजना हो, अथवा संघीय, राज्य, और स्थानीय कर प्राधिकरणों के साथ अन्य लागू समझौता द्वारा कवर न किया गया हो।
7. संघीय अमेरिकन रेस्क्यू प्लान एक्ट ऑफ 2021 के अन्तर्गत, या उपलब्ध किसी अन्य संघीय कोविड-19 आर्थिक पुनरुत्थान या व्यावसायिक सहायता अनुदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यवसाय अनुदान सहायता कार्यक्रमों के लिए पात्र नहीं हुआ हो, जिसमें संघीय पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत माफ़ किए गए ऋण भी सम्मिलित हैं, अथवा ऐसे संघीय कार्यक्रमों से पर्याप्त व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं।*

*पात्र आवेदकों को निम्नलिखित संघीय सहायता प्राप्त हुई हो सकती है या उन्हें अधिनिर्णित किया गया हो सकता है:

- पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के \$250,000 या इससे कम के कुल ऋण
- \$10,000 या इससे कम की कोविड-19 EIDL एडवान्स ग्रान्ट
- \$5,000 या इससे कम की कोविड-19 EIDL सप्लीमेन्टल टारगेटेड एडवान्स ग्रान्ट
- SBA शटर्ड वेन्यू ऑपरेटर ग्रान्ट



कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

अतिरिक्त जानकारी

- पात्र आवेदकों को साक्ष्य प्रदान करना होगा, जो न्यूयॉर्क राज्य को स्वीकार्य हो कि पात्र आवेदक क्रियाशील हैं और यह कि पात्र आवेदक किसी भी राज्य, स्थानीय या अन्य एजेन्सी के आदेश द्वारा प्रतिबन्धित नहीं हैं।
- सीमित मात्रा में निधीयन (फण्डिंग) और अपेक्षा से अधिक अनुरोधों की उच्च मात्रा के कारण, व्यवसाय प्रकार, भूगोल और उद्योग अनुदान प्राप्त करने की क्षमता पर प्रभाव डाल सकते हैं।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित व्यवसाय के स्वामियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें दिव्यांग लोग, सेवा-अक्षम पर्व-सैनिक के स्वामित्व वाले व्यवसाय, और पर्व-सैनिक के स्वामित्व वाले व्यवसाय, अथवा समुदायों में स्थित ऐसे व्यवसाय भी सम्मिलित हैं जो मार्च 1, 2020 से पहले आर्थिक रूप से संकटग्रस्त थे, जैसा कि नवीनतम जनगणना डेटा द्वारा निर्धारित किया गया है, किन्तु इतना ही सीमित नहीं हैं।
- सभी आवेदकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवेदन करने के 14 दिनों के भीतर अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें। आवेदन को 60 दिनों के भीतर पूरा करने एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने में विफल होने से आवेदन को निष्क्रिय माना जाएगा।



कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

अपात्र व्यवसाय

- सभी गैर-लाभकारी, चर्च और अन्य धार्मिक संस्थान;
- सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं या निर्वाचित आधिकारिक कार्यालय;
- ऐसे व्यवसाय जो मुख्य रूप से राजनीतिक या समर्थन-जुटाव कार्यकलापों में प्रवृत्त हैं;
- ऐसे व्यवसाय जिन्हें SBA रेस्टरां रीवाइटलाइज़ेशन ग्रान्ट प्रोग्राम से धन प्राप्त हुआ हो;
- भू-स्वामी और निष्क्रिय अचल संपत्ति आय व्यवसाय;
- अवैध व्यवसाय और उद्यम; तथा
- ई.एस.डी. द्वारा निर्दिष्ट अन्य उद्योग या व्यवसाय के प्रकार।



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

निधि के पात्र उपयोग

अनुदान का उपयोग कोविड-19 से संबंधित मार्च 1, 2020 और अप्रैल 1, 2021 के बीच किए गए व्ययों के लिए करना होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वेतन भुगतान की लागतें;
2. एन.वाई.एस.-स्थित संपत्ति के लिए वाणिज्यिक किराया या बंधक भुगतान (किन्तु कोई किराया या बंधक पूर्व-भुगतान नहीं);
3. एन.वाई.एस. में एक लघु व्यवसाय स्थान से सबद्ध स्थानीय संपत्ति या स्कूल करों का भुगतान;
4. बीमा की लागतें;
5. उपयोगिता की लागतें;
6. कर्मचारी और उपभोक्ता स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की लागतें;
7. हीटिंग, वेन्टिलेशन और एयर कन्डीशनिंग (एचवीएसी) की लागतें;
8. अन्य मशीनरी या उपकरणों की लागतें;
9. कोविड-19 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आचार संहिता के अनुपालन के लिए आवश्यक आपूर्तियां और सामग्रियां; या
10. एम्पायर स्टेट डेवलपमेन्ट द्वारा अनुमोदित अन्य प्रलेखित कोविड-19 की लागतें।

निधि के अपात्र उपयोग

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग व्यावसायिक सहायता या न्यूयॉर्क राज्य के किसी व्यावसायिक सहायता कार्यक्रम के लिए संघीय कोविड-19 राहत पैकेज़ के माध्यम से प्राप्त ऋण के किसी भी हिस्से का पुनर्भुगतान या भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।



कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

1. सकल प्राप्तियों की हानि या अन्य आर्थिक कठिनाई के साक्ष्य के लिए: 2019 और 2020 के व्यावसायिक आयकर रिटर्न
 - कारपोरेशन और सीमित देयता कंपनियां (LLCs) के लिए - IRS फॉर्म 1120
 - साझेदारियों के लिए - IRS फॉर्म 1065 और शेड्यूल K-1s
 - एकल स्वामित्वों के लिए - IRS फॉर्म 1040 और शेड्यूल C
 - एकल स्वामित्व कृषि व्यवसायों के लिए - IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल F शामिल करें

ध्यान दें: 2019 और 2020 के लिए पूर्ण, फ़ाइल किए गए टैक्स रिटर्न आवश्यक हैं
2. पूर्ण किया गया IRS फॉर्म 4506-C (यदि Lendistry द्वारा अनुरोध किया गया है)
3. व्यवसाय के स्थान और वर्तमान संचालन का साक्ष्य (निम्नलिखित में से दो (2) को प्रदान करना होगा):
 - वर्तमान लीज़
 - उपयोगिता (यूटिलिटी) बिल
 - वर्तमान व्यवसाय बैंक स्टेटमेन्ट
 - वर्तमान व्यवसाय बंधक स्टेटमेन्ट
 - व्यवसाय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट
 - पेशेवर बीमा बिल
 - भुगतान प्रसंस्करण स्टेटमेन्ट
 - एन.वाई.एस. ST-809 अथवा ST-100 बिक्री कर संग्रह प्रलेखन



कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

आवृत्यक प्रलेखन (जारी)

4. स्वामित्व की अनुसूची (एकमात्र मालिक पर लागू नहीं): व्यवसाय के 20% या इससे अधिक के स्वामित्व वाले किसी भी स्वामी के नाम, पते, सोशल सिक्यूरिटी नंबर (गैर-अमेरिकी स्वामियों के लिए, व्यक्तिगत करदाता पहचान संख्या), फोन नंबर, ई-मेल, स्वामित्व की प्रतिशतता और फोटो आईडी की सूची:
 - अनुदान के आवेदन को पूरा करने के लिए, स्वामी/आवेदक को कम से कम 20% का स्वामी होना होगा और नाम, पता, सोशल सिक्यूरिटी नंबर या गैर-अमेरिकी स्वामियों के लिए, व्यक्तिगत करदाता पहचान संख्या, फोन नंबर, ई-मेल, स्वामित्व की प्रतिशतता और फोटो आईडी की सूची प्रदान करनी होगी।
 - अनुदान के निधीयन (फण्डिंग) को पूरा करने के लिए, आवेदक को 20% या इससे अधिक के स्वामित्व वाले सभी स्वामियों के स्वामित्व सचना की अनुसूची: नाम, पते, सोशल सिक्यूरिटी नंबर या गैर-अमेरिकी स्वामियों के लिए, व्यक्तिगत करदाता पहचान संख्या, फोन नंबर, ई-मेल, स्वामित्व की प्रतिशतता और फोटो आईडी की सूची प्रस्तुत करनी होगी।
 - गैर-अमेरिकी स्वामी, IRS फॉर्म CP565 के माध्यम से व्यक्तिगत करदाता पहचान संख्या सत्यापन के अधीन हैं।
5. कर्मचारियों की संख्या का साक्ष्य: नियोक्ता फर्मों के लिए हाल ही में प्रस्तुत एन.वाई.एस.-45 दस्तावेज़।
6. व्यावसायिक संगठन का साक्ष्य (निम्नलिखित में से केवल एक (1) को प्रदान करें):
 - वर्तमान व्यावसायिक लाइसेन्स
 - वर्तमान व्यावसायिक प्रमाण-पत्र
 - संगठन का प्रमाण-पत्र
 - कल्पित नाम का प्रमाण-पत्र (डी.बी.ए.)
 - एन.वाई.एस. प्राधिकरण का प्रमाण-पत्र
 - संस्थापन का प्रलेखन
 - एन.वाई.एस. में संचालित करने के लिए प्राधिकरण दिखाते हुए एन.वाई.एस. नगरपालिका द्वारा जारी दस्तावेज़।
7. निधि के वितरण के लिए: IRS फॉर्म W-9 और बैंक खाता जानकारी।



आवश्यक प्रलेखन

उदाहरण



Empire State
Development

Powered by
lendistry

सकल प्राप्तियों की हानि या अन्य आर्थिक कठिनाई के साक्ष्य

कॉरपोरेशन और सीमित देयता कंपनियां (LLCs) IRS फॉर्म 1120-S

Form 1120-S

U.S. Income Tax Return for an S Corporation

OMB No. 1545-0123

Department of the Treasury Internal Revenue Service

2019

For calendar year 2019 or tax year beginning 2019, ending 20

A Selection effective date Name D Employer identification number

B Business activity code number (see instructions) Number, street and room or suite no. if a P.O. box, see instructions. E Date incorporated

C Check if Sch. M-3 attached City or town, state or province, county, and ZIP or foreign postal code F Total assets (see instructions)

G Is the corporation electing to be an S corporation beginning with this tax year? □ Yes □ No If "Yes," attach Form 2553 if not already filed H Check if: (1) □ Final return (2) □ Name change (3) □ Address change (4) □ Amended return (5) □ S election termination or revocation I Enter the number of shareholders who were shareholders during any part of the tax year J Check if corporation: (1) □ Aggregated activities for section 469 at-risk purposes (2) □ Grouped activities for section 469 passive activity purposes

► Don't file this form unless the corporation has filed or is filing Form 2553 to elect to be an S corporation. ► Go to www.irs.gov/Form1120S for instructions and the latest information.

साझेदारियां फॉर्म 1065 शेड्यूल K-1

OMB No. 1545-0123

Schedule K-1 (Form 1065) Department of the Treasury Internal Revenue Service

2020 Final K-1 Amended K-1 OMB No. 1545-0123

Part II Farmer's Share of Current Year Income, Deductions, Credits, and Other Items

For calendar year 2020, or tax year beginning / 2020 ending / 2020 Credits

1 Ordinary business income (loss) 12

2 Net rental real estate income (loss) 13

3 Other net rental income (loss) 14 Foreign transactions

4a Guaranteed payments for services 15

4b Guaranteed payments for capital 16

4c Total guaranteed payments 17

5 Interest income 18

6a Ordinary dividends 19

6b Qualified dividends 20

6c Dividend equivalents 21 Alternative minimum tax (AMT) items

7 Royalties 22

8 Net short-term capital gain (loss) 23

8a Net long-term capital gain (loss) 24 Tax-exempt income and nondeductible expenses

9a Collectibles (28%) gain (loss) 25

9b Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 26

10 Unreceived section 1231 gain (loss) 27

11 Other income (loss) 28 Distributions

12 Section 179 deduction 29 Other information

13 Other deductions 30

14 Self-employment earnings (loss) 31

21 More than one activity for at-risk purpose? 32

22 More than one activity for passive activity purposes? 33

*See attached statement for additional information.

M Did the partner contribute property with a built-in gain or loss? □ Yes □ No If "Yes," attach statement. See instructions.

N Partner's Share of Net Unrecovered Section 79(e) Gain or Loss Beginning: \$ Ending: \$

F2 IRS Use Only

For Paperwork Reduction Act Notice, see Instructions for Form 1065. www.irs.gov/Form1065 Cat. No. 11384R Schedule K-1 (Form 1065) 2020

एकल स्वामित्व (कृषि व्यवसाय) फॉर्म 1040 शेड्यूल F

OMB No. 1545-0123

SCHEDULE F (Form 1040) Department of the Treasury Internal Revenue Service

2020 Final 20 Amended 14

► Attn: To Form 1040, Form 1040-SP, Form 1040-A, Form 1040-EZ, Form 1041, or Form 1065. ► Go to www.irs.gov for instructions and the latest information.

Part I Information About the Partnership

A Partnership's employer identification number

B Partnership's name, address, city, state, and ZIP code

C IRS Center where partnership filed return □ Check if this is a partnership that reported profits or losses on Form 1065-Corp. (see instructions)

Part II Information About the Partner

E Partner's SSN or TIN (Do not use TIN of a disregarded entity. See instructions.)

F Name, address, city, state, and ZIP code for partner entered in E. See instructions

G General partner or LLC limited partner or other LLC inactive manager

H Domestic partner Foreign partner

I If the partner is a disregarded entity (DE), enter the partner's TIN _____ Name _____

J What type of entity is this partner? If this partner is a corporation (RAV/SFC/Keypoint), check here □

K Partner's share of losses: Beginning Ending

Profit % %

Loss % %

Capital % %

Check if decrease is due to sale or exchange of partnership interest □

L Partner's Capital Account Analysis

Beginning Capital account \$ _____

Capital contributed during the year \$ _____

Current year net income (loss) \$ _____

Other partners' (partner's) batch extraction \$ _____

Withdrawing & investing \$ _____

Ending capital account \$ _____

M Did the partner contribute property with a built-in gain or loss? □ Yes □ No If "Yes," attach statement. See instructions.

N Partner's Share of Net Unrecovered Section 79(e) Gain or Loss Beginning: \$ Ending: \$

For Paperwork Reduction Act Notice, see Instructions for Form 1040. www.irs.gov/Form1040 Cat. No. 11384R Schedule F (Form 1040) 2020

1 Ordinary business income (loss) 2

2 Net rental real estate income (loss) 3

3 Other net rental income (loss) 4

4a Guaranteed payments for services 5

4b Guaranteed payments for capital 6

4c Total guaranteed payments 7

5 Interest income 8

6a Ordinary dividends 9

6b Qualified dividends 10

6c Dividend equivalents 11

7 Royalties 12

8 Net short-term capital gain (loss) 13

8a Net long-term capital gain (loss) 14

9a Collectibles (28%) gain (loss) 15

9b Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 16

10 Unreceived section 1231 gain (loss) 17

11 Other income (loss) 18 Distributions

12 Section 179 deduction 19

13 Other deductions 20

14 Self-employment earnings (loss) 21

22 More than one activity for at-risk purpose? 23

23 More than one activity for passive activity purposes? 24

24 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 25

25 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 26

26 Depreciation and section 179 expenses 27

27 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 28

28 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 29

29 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 30

30 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 31

31 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 32

32 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 33

33 Capital gains distributions (Form 1099-PATR) 34

34 Net long-term capital gain (loss) 35

35 Net long-term capital gain (loss) 36

36 Received for future use 37

37 Check the box that describes your investment in this activity and see instructions for where to report your loss. □ At-risk loss □ Passive loss □ Net long-term capital gain (loss) 38

For Paperwork Reduction Act Notice, see Instructions for Form 1040. www.irs.gov/Form1040 Cat. No. 11384R Schedule F (Form 1040) 2020

पूर्ण किया गया 4506-C (केवल यदि LENDISTRY द्वारा अनुरोध किया गया हो)

Form 4506-C (September 2020) Department of the Treasury - Internal Revenue Service OMB Number 1545-0172

IVES Request for Transcript of Tax Return

► Do not sign this form unless all applicable lines have been completed.

► Request may be rejected if the form is incomplete or illegible.

► For more information about Form 4506-C, visit www.irs.gov and search IVES.

1a. Name shown on tax return (if a joint return, enter the name shown first) 1b. First social security number on tax return, individual taxpayer identification number, or employer identification number (see instructions)

2a. If a joint return, enter spouse's name shown on tax return 2b. Second social security number or individual taxpayer identification number if joint tax return

3. Current name, address (including apt., room, or suite no.), city, state, and ZIP code (see instructions)

4. Previous address shown on the last return filed if different from line 3 (see instructions)

5a. IVES participant name, address, and SOR mailbox ID

5b. Customer file number (if applicable) (see instructions)

Caution: This tax transcript is being sent to the third party entered on Line 5a. Ensure that lines 5 through 8 are completed before signing. (see instructions)

6. Transcript requested: Enter the tax form number (e.g. 1040, 1065, 1120, etc.) and check the appropriate box below. Enter only one tax form number per request

a. Return transcript, which includes most of the line items of a tax return as filed with the IRS. A tax return transcript does not reflect changes made to the account after the return is processed. Transcripts are only available for the following returns: Form 1040 series, Form 1065, Form 1120, Form 1120-A, Form 1120-L, Form 1120-S, and Form 1120-S. Return transcripts are available for the current year and returns processed during the prior 3 processing years.




Empire State
Development

Powered by
lendistry

व्यावसायिक संगठन का साक्ष्य

वर्तमान व्यावसायिक लाइसेन्स



वर्तमान व्यावसायिक प्रमाण-पत्र



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

व्यावसायिक संगठन का साक्ष्य

संस्थापन का प्रमाण-पत्र

New York State
Department of State
Division of Corporations, State Records
and Uniform Commercial Code
Albany, NY 12223

(This form must be printed or typed in black ink)

**CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF**

(Insert corporate name)

Under Section 402 of the Business Corporation Law

FIRST: The name of the corporation is: _____

SECOND: This corporation is formed to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the Business Corporation Law, provided that it is not formed to engage in any act or activity requiring the consent or approval of any state official, department, board, agency or other body without such consent or approval first being obtained.

THIRD: The county, within this state, in which the office of the corporation is to be located is: _____

FOURTH: The total number of shares which the corporation shall have authority to issue and a statement of the par value of each share or a statement that the shares are without par value are: 20,000 shares at \$1 Par Value

FIFTH: The secretary of state is designated as agent of the corporation upon whom process against the corporation may be served. The address to which the Secretary of State shall mail a copy of any process accepted on behalf of the corporation is:

SIXTH: (optional) The name and street address in this state of the registered agent upon whom process against the corporation may be served is:

DOS-1239 (Rev. 5/05)

कल्पित नाम का प्रमाण-पत्र (डी.बी.ए.)

New York State Department of State
Division of Corporations, State Records & Uniform Commercial Code
One Commerce Plaza, 99 Washington Avenue
Albany, NY 12220
www.dos.ny.gov

**CERTIFICATE OF AMENDMENT
OF
CERTIFICATE OF ASSUMED NAME
OF**

(Insert Real Name of Entity)
Under Section 130 of the General Business Law

FIRST: The real name of the entity is: _____

SECOND: Foreign entities only: If applicable, the fictitious name the entity agreed to use in New York State is: _____

THIRD: If the real name of the entity is different on the last Certificate of Assumed Name or Certificate of Amendment of Certificate of Assumed Name, the previous name of the entity is: _____

FOURTH: The entity was formed or authorized under (indicate law):

Business Corporation Law Not-for-Profit Corporation Law
 Education Law Revised Limited Partnership Act
 Insurance Law Other (specify law): _____
 Limited Liability Company Law

FIFTH: The present assumed name is: _____

SIXTH: The date the original Certificate of Assumed Name was filed is: _____

SEVENTH: The date, if applicable, the last Certificate of Amendment of Certificate of Assumed Name was filed is: _____

EIGHTH: The following change(s) are being made (check the appropriate change(s)):

Entity Name:
The new name of the entity is: _____
 Assumed Name:
The new assumed name is: _____
 Principal Place of Business:
The principal place of business is changed to (Include the number and street, city, state and zip code): _____

DOS-1020-H (Rev. 04/13)

Page 1 of 2



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

व्यावसायिक संगठन का साक्ष्य

प्राधिकरण का प्रमाण-पत्र



संस्थापन का प्रलेखन

New York State Department of State
Division of Corporations, State Records and Uniform Commercial Code
One Commerce Plaza, 99 Washington Avenue
Albany, NY 12231
www.dos.ny.gov

CERTIFICATE OF INCORPORATION OF

(Insert Corporate Name)

Under Section 402 of the Business Corporation Law

FIRST: The name of the corporation is:

SECOND: This corporation is formed to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the Business Corporation Law, provided that it is not formed to engage in any act or activity requiring the consent or approval of any state official, department, board, agency or other body without such consent or approval first being obtained.

THIRD: The county, within this state, in which the office of the corporation is to be located is:

FOURTH: The total number of shares which the corporation shall have authority to issue and a statement of the par value of each share or a statement that the shares are without par value are: 200 No Par Value

FIFTH: The Secretary of State is designated as agent of the corporation upon whom process against the corporation may be served. The address to which the Secretary of State shall mail a copy of any process accepted on behalf of the corporation is:



Empire State
Development

Powered by
lendistry

व्यवसाय के स्थान और वर्तमान संचालन का साक्ष्य

आवेदकों को व्यवसाय के स्थान और वर्तमान संचालन का साक्ष्य निम्नलिखित में से दो (2) को प्रदान करना होगा:

- वर्तमान लीज़
- उपयोगिता (यूटिलिटी) बिल
- वर्तमान व्यवसाय बैंक स्टेटमेन्ट
- वर्तमान व्यवसाय बंधक स्टेटमेन्ट
- व्यवसाय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट
- पेशेवर बीमा बिल
- भुगतान प्रसंस्करण स्टेटमेन्ट
- एन.वाई.एस. ST-809 अथवा ST-100 बिक्री कर संग्रह प्रलेखन

महत्वपूर्ण नोट: ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों में से, मासिक स्टेटमेन्ट्स आवेदन प्रस्तुत करने के समय से पिछले 30 दिनों के भीतर होना होगा, और अन्य दस्तावेज सबसे हाल के संस्करण हस्ताक्षरित या दायर किए जाने चाहिए।

एन.वाई.एस. ST-809

Department of Taxation and Finance
**New York State and Local
Sales and Use Tax Return
for Part-Quarterly (Monthly) Filers**

Part-Quarterly (Monthly) ST-809
January 1, 2019 - January 31, 2019

February 2019

Business Identification Number: [Redacted]
Legal name (print SS-number and legal name if appears on the Certificate of Authority)

DBA (doing business as) name: [Redacted]

Number and street: [Redacted]

City, state, ZIP code: [Redacted]

Date: Thursday, February 28, 2019
This is a \$50 penalty for late filing of a no-tax-due return. See instructions.

Business information changed? [Redacted] If so, visit our website (see "Useful Links" in instructions) and see the change my address option for further instructions.

Complete Step 1 or Step 2, then both:

Step 1 Long method of calculating tax due (see instructions):

1. Enter total gross sales and services (in nearest dollar)	[Redacted]	00
2. Enter total taxable sales and services (in nearest dollar)	[Redacted]	00
3. Enter total purchases subject to tax (in nearest dollar)	[Redacted]	00
4. Sales and use tax	[Redacted]	00
5. Credit for prepaid sales tax	[Redacted]	00
6. Net tax due (subtract line 5 amount from line 4 amount)	[Redacted]	00
7. Credits not identified (attach memo required)	[Redacted]	00
8. Advance payments	[Redacted]	00
9. Add line 6 amount to line 8 forward	[Redacted]	00
10. Sales and use tax due (subtract line 9 amount from line 6 amount)	[Redacted]	00
11. Penalty and interest	[Redacted]	00
12a. Amount due (add line 10 amount to line 11 amount)	[Redacted]	00
12b. Amount paid	[Redacted]	00

Step 2 Short method of calculating tax due (see instructions):

1. Comparable quarter of previous year	[Redacted]	00
2. Total sales (in thousands)	[Redacted]	00
3. Credit for prepaid sales	[Redacted]	00
4. Net tax due (subtract line 2 amount from line 3 amount)	[Redacted]	00
5. Credits not identified (attach memo required)	[Redacted]	00
6. Advance payments	[Redacted]	00
7. Add line 4 amount to line 6 forward	[Redacted]	00
8. Sales and use tax due (subtract line 7 amount from line 4 amount)	[Redacted]	00
9. Penalty and interest	[Redacted]	00
10a. Amount due (add line 8 amount to line 9 amount)	[Redacted]	00
10b. Amount paid	[Redacted]	00

*Include short method adjustment in box 1 (use short method adjustment at page 2 of instructions.)
Locality _____ Adjustment _____
For office use only

ST-809 (120) Page 1 of 2



Empire State
Development

Powered by
lendistry

व्यावसायिक संगठन का साक्ष्य

ST-100 बिक्री कर दस्तावेज़ीकरण

 2nd Quarter	New York State Department of Taxation and Finance New York State and Local Quarterly Sales and Use Tax Return	Quarterly ST-100 June July August Tax period June 1, 2009 – August 31, 2009																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Sales tax identification number <input style="width: 150px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Legal name (Print ID number and legal name as it appears on the Certificate of Authority) <input style="width: 150px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> DBA (doing business as) name <input style="width: 150px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Number and street <input style="width: 150px;" type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> City, state, ZIP code <input style="width: 150px;" type="text"/> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> September 2009 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>G</td><td>M</td><td>T</td><td>W</td><td>T</td><td>F</td><td>S</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Due date: Monday, September 21, 2009 </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <i>You will be responsible for penalty and interest if your return is not postmarked by this date.</i> </div>	G	M	T	W	T	F	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
G	M	T	W	T	F	S																																						
1	2	3	4	5	6	7																																						
8	9	10	11	12	13	14																																						
15	16	17	18	19	20	21																																						
22	23	24	25	26	27	28																																						
29	30	31																																										
<p>No tax due? Enter your gross sales and services in box 1 of Step 1 below. In Step 3 on page 3, enter none in boxes 12, 13, and 14 and complete Step 9. You must file by the due date even if no tax is due. There is a \$50 penalty for late filing of a no-tax due return. See <input checked="" type="checkbox"/> in instructions.</p> <p>Final return? Mark an X in the box to the right if you are discontinuing your business and this is your final return; complete this return and the back of your Certificate of Authority. Attach the Certificate of Authority to the return. See <input checked="" type="checkbox"/> in instructions.</p> <p>Has your address or business information changed? If so, visit our Web site at www.nysat.gov and see the change my address option for further instructions, or mark an X in the box to the right and enter new mailing address above. See <input checked="" type="checkbox"/> in instructions.</p>																																												
Step 1 of 9 Gross sales and services <input style="width: 150px;" type="text"/> <small>Enter total gross sales and services (including exempt codes). Do not include sales tax in this amount. See <input checked="" type="checkbox"/> in instructions.</small>		<input type="checkbox"/> 00																																										
<p>Step 2 of 9 Do I need to file any additional schedules? Need to obtain schedules? See Need help? on page 4 of Form ST-100-4.</p> <p>A Form ST-100.2, Quarterly Schedule A — Use to report tax and taxable receipts from sales of food and drink (restaurant meals, takeout, etc.) and from hotel/motel room occupancy in Nassau or Niagara County, as well as admissions, club dues, and cabaret charges. Use Form ST-100-2-ATT, Quarterly Schedule A-ATT.</p> <p>B Form ST-100.3, Quarterly Schedule B — Use to report tax due on nonresidential utility services in certain counties where school districts charge impact tax, and on residential energy sources and services subject to local taxes. Remember Use Form ST-100.3-ATT, Quarterly Schedule B-ATT. To report sales of these nonresidential utility services made to GEZEs.</p> <p>FR Form ST-100.10, Quarterly Schedule FR — Use to report retail sales of qualified motor fuel or diesel motor fuel and fuel taken from inventory, as explained in the schedule's instructions.</p> <p>H Form ST-100.7, Quarterly Schedule H — Use to report sales of clothing and footwear eligible for exemption from New York State and some local sales and use tax.</p> <p>N Form ST-100.5, Quarterly Schedule N — Use to report taxes due and sales of certain services in New York City. Reminder: Use Form ST-100.5-ATT, Quarterly Schedule N-ATT, if you are a provider of parking services in New York City.</p> <p>Q Form ST-100.9, Quarterly Schedule Q — Use to report sales of tangible personal property or services to Qualified Empire Zone Enterprises (GEZE)s eligible for exemption from New York State and some local sales and use tax.</p> <p>T Form ST-100.8, Quarterly Schedule T — Use to report taxes due on telephone services, telephone answering services, and telegraph services imposed by certain counties, school districts, and cities. Reminder: Use Form ST-100.8-ATT, Quarterly Schedule T-ATT, to report sales of these services made to GEZEs.</p>																																												
<p>Schedules CT and NJ For reciprocal tax agreement filing requirements, see <input checked="" type="checkbox"/> in instructions.</p> <p>Refer to Form ST-100-1, Instructions for Form ST-100. If you have questions or need help, please be sure to keep a completed copy of your return for your records.</p>																																												
<input style="width: 150px;" type="button" value="Proceed to Step 3, page 2"/>		<small>For office use only</small>																																										

नियोक्ता फर्मों के लिए हाल ही में प्रस्तुत एन.वाई.एस.-45 दस्तावेज़।

NYS-45 (1/19)		Quarterly Combined Withholding, Wage Reporting, And Unemployment Insurance Return	
Reference these numbers in all correspondence:			
UI Employer registration number			
Withholding identification number			
Employer legal name:			
Number of employees Enter the number of full-time and part-time covered employees who worked during or received pay for the week that includes the 15th day of each month.		<input type="checkbox"/> a. First month <input type="checkbox"/> b. Second month <input type="checkbox"/> c. Third month	
Mark an X on only one box to indicate the quarter (a separate return must be completed for each quarter) and enter the year Jan 1 - Mar 31 <input type="checkbox"/> Apr 1 - Jun 30 <input type="checkbox"/> July 1 - Sept 30 <input type="checkbox"/> Oct 1 - Dec 31 <input type="checkbox"/> Year _____			
Are dependent health insurance benefits available to any employee? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
If seasonal employer, mark an X in the box <input type="checkbox"/>			
Postmark _____ Received date _____			
Part A - Unemployment Insurance (UI) information <ol style="list-style-type: none"> 1. Total remuneration paid this quarter 0 0 2. Remuneration paid in excess of the UI wage base since January 1 (see inst.) 0 0 3. Wages subject to contribution (from line 1 minus line 2) 0 0 4. UI contributions due Enter your <input type="checkbox"/> . % 5. Re-employment service fund (multiply line 3 x .0075) 0 0 6. UI previously unpaid with interest 0 0 7. Total of lines 4, 5, and 6 0 0 8. Enter UI previously overpaid 0 0 9. Total UI amount due (line 7 is greater than line 8) 0 0 10. Total UI overpaid (line 8 is greater than line 7, enter difference and include cents below) 0 0 11. Apply to outstanding liabilities and/or refund 0 0 		Part B - Withholding tax (WT) information <ol style="list-style-type: none"> 12. New York State tax withheld 0 0 13. New York City tax withheld 0 0 14. Your total tax withheld 0 0 15. Total WT withheld (add lines 12, 13, and 14) 0 0 16. WT credit from previous quarter's return (see inst.) 0 0 17. Form NYS-4 payments made for quarter 0 0 18. Total payments (add lines 14 and 17) 0 0 19. Total WT amount due (if line 15 is greater than line 16, enter difference) 0 0 20. Total amount paid (if line 18 is greater than line 15, enter difference here and mark an X in Box 20 or 20b) 0 0 21. Total payment due (add lines 9 and 19; make one remittance payable to NY Employment Contributions and Taxes) 0 0 <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> OR 20b. Credit to next quarter withholding tax 0 0</p>	
* An overpayment of either UI contributions or withholding tax cannot be used to offset an amount due for the other. Complete parts D and E on back of form, if required.			
Part C - Employee wage and withholding information			
Quarterly employee/payer wage reporting and withholding information (If more than five employees or if reporting other wages, do not make entries in this section; complete Form NYS-45-ATT. Do not use negative numbers; see instructions.)			
a Social Security number	b Last name, first name, middle initial	c Total UI remuneration paid this quarter	d Gross federal wages or distribution (see instructions)
.....
.....
.....
.....
Totals (column c must equal remuneration on line 1; see instructions for exceptions)			
Sign your return: I certify that the information on this return and any attachments is to the best of my knowledge and belief true, correct, and complete (Signature (see instructions))		Signer's name (please print) _____ Date _____	
Date _____	Telephone number _____		

स्वामित्व की अनुसूची:

व्यवसाय के 20% या इससे अधिक के स्वामित्व वाले किसी भी स्वामी के लिए नाम, पते, सोशल सिक्युरिटी नंबर (या, गैर-अमेरिकी स्वामियों के लिए, व्यक्तिगत करदाता पहचान संख्या), फोन नंबर, ई-मेल, स्वामित्व की प्रतिशतता और फोटो आईडी की सूची।

आप इस फॉर्म को पोर्टल में या [यहां क्लिक करकेडाउनलोड](#) कर सकते हैं।

Name	Jane Doe
Residential Address	123 Test Street
City	New York City
State	New York
Postal Code	10001
SSN or ITIN	000-00-0001
Phone Number	123-456-7890
E-mail	janedoe@yopmail.com
Percentage Ownership	100%



धन वितरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (केवल अनुदान के लिए स्वीकृत पात्र आवेदकों के लिए)

W-9

W-9

Form (Rev. October 2018)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

► Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

Give Form to the requester. Do not send to the IRS.

1 Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.

2 Business name/disregarded entity name, if different from above

3 Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following seven boxes.

- Individual/sole proprietor or C Corporation S Corporation Partnership Trust/estate single-member LLC
- Limited liability company. Enter the tax classification (C-C corporation, S-S corporation, P-Partnership) ► Note: Check the appropriate box in the line above for the tax classification of the single-member owner. Do not check this box if the LLC is classified as a single-member LLC that is disregarded from the owner unless the owner of the LLC is another LLC that is not disregarded from the owner for U.S. federal tax purposes. Otherwise, a single-member LLC that is disregarded from the owner should check the appropriate box for the tax classification of its owner.
- Other (see instructions) ►

4 Exemption codes apply only to certain entities, not individuals; see instructions on page 3:
Exempt payee code (if any) _____
Exemption from FATCA reporting code (if any) _____

5 Address (number, street, apt. or suite no.) See instructions. Requester's name and address (optional)

6 City, state, and ZIP code

7 List account number(s) here (optional)

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)
Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a registered agent, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see [How to get a TIN](#), later.
Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. Also see [What Name and Number To Give the Requester](#) for guidelines on whose number to enter.

Social security number _____ - _____ - _____
or
Employer identification number _____ - _____ - _____

Part II Certification
Under penalties of perjury, I certify that:

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification Instructions: You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign Here _____ Signature of U.S. person ► Date ►

बैंक खाता संबंधी जानकारी

* Bank Name _____

* Routing Number
[\(What Is This?\)](#) _____

* Confirm Routing Number _____

* Checking Account Number
[\(What Is This?\)](#) _____

* Confirm Checking Account Number _____



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development
Powered by
lendistry

आवेदन करने के लिए युक्तियाँ



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

युक्ति #1: Google Chrome का उपयोग करें

निर्देश

सर्वोत्तम उपभोक्ता अनुभव के लिए, आवेदन प्रमाणन को कैसे डाउनलोड करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्ण करें

अन्य वेब ब्राउज़र हमारे इंटरफ़ेस का समर्थन न भी करें और आपकी ऐप्लिकेशन में त्रुटियां उत्पन्न कर सकते हैं।

यदि आपकी डिवाइस में Google Chrome नहीं है, आप इसे <https://www.google.com/chrome/> से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

आपके द्वारा आवेदन आरंभ करने से पहले, कृपया Google Chrome पर निम्नलिखित कार्य करें:


- कैश मेमरी को साफ करें:** कैश किया गया डेटा वह जानकारी होती है जो पर्व में उपयोग की गई वेबसाइट या ऐप्लिकेशन से स्टोर की जाती है और प्राथमिक रूप से आपकी जानकारी को ऑटो-पॉप्युलेट करके ब्राउज़िंग प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए उपयोग की जाती है। तथापि, कैश किए गए डेटा में पुरानी जानकारी, जैसे कि, पुराने पासवर्ड या आपके द्वारा पहले ग़ालत दर्ज की गई जानकारी भी सम्मिलित हो सकती है। यह आपके आवेदन में त्रुटियां उत्पन्न कर सकता है और इसके कारण संभावित धोखाधड़ी के लिए फ़्लैग किया जा सकता है।
- इन्कॉर्नीटो मोड खोलें:** इन्कॉर्नीटो (अज्ञात) मोड आपको निजी रूप से जानकारियां प्रविष्ट करने में समर्थ बनाता है और आपके डेटा को याद रखे जाने या कैश किए जाने से रोकता है।
- अपने पॉप-अप ब्लॉकर को अक्षम करें:** हमारी ऐप्लिकेशन में कई पॉप-अप संदेश सम्मिलित हैं जिनका उपयोग आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। आपको यह संदेश देखने के लिए Google Chrome पर पॉप-अप ब्लॉकर को अक्षम करना होगा।




युकित #2: कैश मेमरी को साफ करें

निर्देश


- ऊपरी दार्ढ़ी कोने में तीन बिंदुओं पर क्लिक करें, और फिर "सेटिंग्स" पर जाएं।



- "प्राइवेसी एवं सिक्यूरिटी" पर जाए, और फिर "ब्राउज़िंग डेटा को साफ करें" चुनें।




- "डेटा साफ करें" को चुनें



युक्ति #3: इन्कॉग्नीटो मोड का उपयोग करें

निर्देश

आपके ब्राउज़र के ऊपरी दायें कोने में तीन बिंदुओं पर क्लिक करें, और फिर “न्यू इन्कॉग्नीटो विंडो” चुनें। आपका ब्राउज़र एक नई विंडो खोलेगा।



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY


Empire State
Development

Powered by
lendistry


युकित #4: पॉप-अप ब्लॉकर को अक्षम करें

निर्देश


- Google Chrome पर, ऊपरी दायें कोने में तीन बिंदुओं पर क्लिक करें, और फिर “सेटिंग्स” चुनें




- “गोपनीयता और सुरक्षा” को चुनें




- “साइट सेटिंग्स” को चुनें



- “पॉप-अप और रीडायरेक्ट्स” को चुनें।



- बटन पर क्लिक करें जिससे यह **नीला हो** जाए और इसका स्टेटस “ब्लॉक्ड” से “अलाउड” पर परिवर्तित हो जाए



युकित #5: सभी दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में प्रस्तुत करें

निर्देश

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को स्पष्ट, सीधा अलाइन होना होगा, और इसमें कोई विचलित करने वाली पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए।

दस्तावेज अपलोड करने के लिए महत्वपूर्ण नोट:

- **सभी दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में प्रस्तुत करना होगा (.IMG और .JPEG फाइलें समर्थित नहीं हैं)।**
- फाइल का आकार 15MB से कम होना चाहिए।
- फाइल नाम में कोई विशेष वर्ण नहीं हो सकते (!@#\$%^&*()_+).
- यदि आपकी फाइल पासवर्ड द्वारा संरक्षित है, तो आपको इसे पोर्टल में दर्ज करना होगा, अन्यथा हम दस्तावेज को देख नहीं पाएंगे।

यदि आपके पास कोई स्कैनर नहीं है, तो हम निम्नलिखित निःशुल्क मोबाइल ऐप्स का उपयोग करने का परामर्श देते हैं:

Genius Scan

Apple | [डाउनलोड करने के लिए](#)
[यहां क्लिक करें](#)

Android | [डाउनलोड करने के लिए](#)
[यहां क्लिक करें](#)

Adobe Scan

Apple | [डाउनलोड करने के लिए](#)
[यहां क्लिक करें](#)

Android | [डाउनलोड करने के लिए](#)
[यहां क्लिक करें](#)

सही



गलत



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

युक्ति #6: एक मान्य ई-मेल पते का उपयोग करें।

निर्देश

कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन करते समय आप एक मान्य ई-मेल पते का उपयोग कर रहे हैं। आपके द्वारा प्रदान किए गए ई-मेल पते पर आपको अपडेट और अतिरिक्त निर्देश प्राप्त होंगे।

महत्वपूर्ण नोट - नीचे दिये गए ई-मेल पते हमारी सिस्टम में स्वीकार या मान्य नहीं किए जाएंगे:

ऐसे ई-मेल पते जो info@
से चालू होते हैं उदाहरण: info@mycompany.com

ऐसे ई-मेल पते जो @contact.com अथवा @noreply.com पर समाप्त
होते हैं
उदाहरण: example@contact.com
उदाहरण: example@noreply.com



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development
Powered by
lendistry

युक्ति #7: आपकी पसंदीदा भाषा में आवेदन को अनुवादित करें

निर्देश

हमारे आवेदन को निम्नलिखित भाषाओं में अनुवादित किया जा सकेगा:

- अरबी
- बंगाली
- चीनी (सरलीकृत मैण्डेरियन)
- फ्रेंच
- जर्मन
- हैतीयन क्रेओल
- हिन्दी
- इतालवी
- कोरियन
- पोलिश
- रूसी
- स्पैनिश
- यिडिश

महत्वपूर्ण नोट: आवेदन को पूरा करने में अंग्रेजी भाषा के समर्थन हेतु,
कृपया हमारे कॉल सेंटर से संपर्क करें या

www.nysmallbusinessrecovery.com पर जाएं।



Empire State
Development

Powered by
lendistry

आवेदन

किस जानकारी की आवश्यकता है?



Empire State
Development

Powered by
lendistry

इससे पहले कि आप शुरुआत करें


क्या अपेक्षा करें

यह अनुदान आवेदन एम्पायर स्टेट डेवलपमेन्ट द्वारा प्रशासित है और Lendistry द्वारा संचालित है।

प्रारंभ करने से पहले, आपको एक नया आवेदन शुरू करने के लिए आपको प्रतीक्षालय में कतार में रखा जाएगा। (महत्वपूर्ण नोट: एक से अधिक आवेदन न भरें। इस बात को संभावित धोखाधड़ी के रूप में पहचाना जाएगा और आपके आवेदन को बाधित करेगा।)

आपको यह आवेदन एक सत्र में पूरा करने की आवश्यकता नहीं है और इसे सहेजने और बाद में जारी रखने का विकल्प होगा।

हमारे पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए आवेदन के "आरंभ करें" अनुभाग में अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें। एक बार जब आप अपना खाता सक्रिय कर लेते हैं, तो आप अपने अधूरे आवेदन को पूर्ण करने में सक्षम होंगे।



खण्ड 1: अपनी आवेदन प्रक्रिया को शुरू करें

किस जानकारी की आवश्यकता है?

- प्रथम नाम
- अन्तिम नाम
- ई-मेल
- फोन नंबर
- व्यवसाय का नाम
- व्यवसाय का ज़िप कोड
- रेफरल साझेदार (इस फ़िल्ड के लिए आपका चयन आपके आवेदन को प्रभावित नहीं करेगा)
- पसंदीदा भाषा

महत्वपूर्ण नोट: कृपया इस खण्ड में एक मान्य ई-मेल पते का उपयोग करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ई-मेल पते पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट और आगे के निर्देश भेजे जाएंगे। मान्य ई-मेल पतों की एक सूची के लिए “आवेदन करने के लिए युक्तियां” का सन्दर्भ लें।

SMS/टेक्स्ट नीति

आपके अनुदान आवेदन के लिए स्टेटस अपडेट SMS/टेक्स्ट द्वारा उपलब्ध होंगे। SMS/टेक्स्ट द्वारा अपडेट प्राप्त करने के लिए, कृपया प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) को पढ़ने के बाद बॉक्स पर चेक का निशान लगाकर सहमति प्रदान करें। यदि आप इस सुविधा से ऑप्ट-आउट करना चाहते हैं, तो बॉक्स को बिना चेक के निशान के छोड़ दें।

Let's get started with your application (New York Small Business Recovery Grant Program) Collapse All Sections

First Name (Please enter answer in English) *	Jane	Last Name (Please enter answer in English) *	Doe
Email Address *	nyrecovery@yopmail.com	Confirm Email Address *	nyrecovery@yopmail.com
Owner cell Phone *	123-555-0000	Confirm owner cell Phone *	123-555-0000
Business Name (Please enter answer in English) *	My Company	Zip Code of Business *	10001
Referral Partner *	ACCORD Corporation	Preferred Language *	English
<input checked="" type="checkbox"/> I accept the SMS/Text Policy			
CONTINUE			

ऑटो-डायल कॉल या टेक्स्ट संदेशों के लिए सहमति:

CONSENT TO AUTO-DIALED CALLS OR TEXT MESSAGES:

I expressly consent to receive calls and messages to landline, wireless or similar devices, including auto-dialed and pre-recorded message calls and SMS messages (including text messages) from Lendistry and/or its authorized representatives at telephone numbers that I have provided in my application for the purposes of receiving updates and other information related to the New York State COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program. I acknowledge that consent is not a condition of submitting an application, and that message and data rates may apply.

Okay



खण्ड 2: मालिक के विवरण

किस जानकारी की आवश्यकता है?

- मालिक का प्रथम नाम
- मालिक का अन्तिम नाम
- मालिक का ई-मेल
- मालिक का पता, शहर, राज्य, ज़िप कोड, एवं देश
- मालिक की जन्मतिथि
- मालिक का सोशल सिक्यूरिटी नंबर (या ITIN)
- स्वामित्व का %

नियम एवं शर्तें

यह अभिस्वीकार करने के लिए बॉक्स पर चेक का निशान लगाएं कि आपने नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनसे सहमत हैं। आपके अनुदान आवेदन पर आगे बढ़ने के लिए आपको सहमत होना होगा।

Owner Details

Owner First Name *	Jane	Owner Last Name *	Doe
Owner Email *	nyrecovery@yopmail.com	Owner Cellphone *	123-555-0000
Owner Address (Please do not enter PO Box & enter answer in English) *	123 Test Street		
Owner City (Please enter answer in English) *	New York City		
Owner Zip *	10001		
Owner date of birth (mm/dd/yyyy) *	12/03/1991		
% of Ownership *	100		
<input checked="" type="checkbox"/> I accept the Terms and Conditions			
SAVE & AGREE			

नियम एवं शर्तें

By checking the box I acknowledge that I have read and agree to the following:

1. [Terms of Use](#)
2. [Additional Authorizations](#)
3. [Privacy Policy](#)

LENDISTRY is a licensed California Financial Lender, License # 60DBO66872

Okay



Empire State
Development

Powered by
lendistry

खण्ड 3: व्यवसाय की जानकारी

किस जानकारी की आवश्यकता है?

- व्यवसाय का नाम
- डी.बी.ए. (यदि लागू हो)
नोट: यदि आपके व्यवसाय में DBA नहीं है, तो इस फ़ील्ड में “कोई नहीं” टाइप करें।
- व्यवसाय का EIN
- व्यवसाय का फ़ोन नंबर
- व्यवसाय का प्रकार
- संस्थापन का राज्य
- व्यवसाय का पता, शहर, राज्य, ज़िप कोड, एवं देश
- व्यवसाय की प्रारंभ तिथि
- व्यवसाय की वेबसाइट
नोट: यदि आपके व्यवसाय की कोई वेबसाइट नहीं है, तो इस फ़ील्ड में “none.com” टाइप करें।

Business information

Business Name *	My Company	DBA (Doing Business As)-[Note-If No DBA type NONE] (Please enter answer in English) *	none
Business EIN (Only digits, cannot contain special character or spaces) *	000000001	Business Phone # *	123-555-0000
Business Type *	Corporation	State of Incorporation *	New York
Business Address (Please do not enter PO Box & enter answer in English) *	123 Company Street	Address 2 (Please do not enter PO Box & enter answer in English)	
City (Please enter answer in English) *	New York City	State *	New York
County *	Albany County	Zip *	10001
Date Business Established (mm/dd/yyyy) *	04/23/2016	Business Website URL - (If no website please type none.com) *	none.com



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

खण्ड 4: हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं?

किस जानकारी की आवश्यकता है?

- अनुदान का प्रयोजन
- अनुमानित अनुदान पात्रता राशि
ध्यान दें: आपके द्वारा अनरोध की जा सकने वाली राशि आपकी 2019 की वार्षिक सकल प्राप्तियों पर आधारित है।
- वर्ष 2019 के लिए वार्षिक सकल प्राप्ति (इसका आपके टैक्स रिटर्न से मिलान होना चाहिए)
- क्या वर्ष 2019 में आपका व्यवसाय लाभदायक था? (पंक्ति 28, IRS फॉर्म 1120; पंक्ति 22, IRS फॉर्म 1065; पंक्ति 31, IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल C; या पंक्ति 34, IRS फॉर्म 1040 शेड्यूल F)
- पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या (2020)*
- अंशकालिक कर्मचारियों की संख्या (2020)*
- सृजित की गई नौकरियों की संख्या (2020)
- प्रतिधारित नौकरियों की संख्या (2020)

How can we help you

[Watch Video](#)

Purpose of grant *	Estimated grant eligibility amount *
Payroll Costs	\$ 10000 Check Eligibility
Annual Gross Receipts for 2019 (this should match your tax return) *	Was your business profitable in 2019?
\$ 50000	Yes
# of Full-time Employees (2020) *	# of Part-time Employees (2020) *
5	0
# of jobs created (2020) *	# of jobs retained (2020) *
0	3

*व्यवसाय के मालिकों जो व्यवसाय के वेतनभोगी कर्मचारी हैं और जिन्हें W-2 प्राप्त होता है, उन्हें कर्मचारियों की संख्या में शामिल किया जाना चाहिए।



खण्ड 5: व्यवसाय की जनसांख्यिकी

किस जानकारी की आवश्यकता है?

- आपका ग्राहक आधार कौन है?
 - B2B: व्यवसाय-से-व्यवसाय
कंपनी अन्य व्यवसायों को सेवाएं या उत्पाद प्रदान करती है
 - B2C: व्यवसाय से उपभोक्ता
कंपनी सीधे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को विक्रय करती है
- आपका व्यवसाय क्या करता है? यह किस प्रकार का व्यवसाय है?
- हमें और अधिक बताएं।
- NAICS कोड*
- महिला के स्वामित्व का व्यवसाय?**+
- पर्व-सैनिक के स्वामित्व का व्यवसाय?**
- विकलांग?**
- प्रजाती?
- जातीयता?
- फ्रैन्चाइज़?
- अल्पसंख्यक स्वामित्व वाला व्यवसाय?**+

The screenshot shows a survey form titled "Business demographics". It asks about the customer base (B2B selected), business type (Whole Sale - Non Durable), NAICS code (000000), women-owned business (YES), disabled status (NO), ethnicity (Not Hispanic or Latino), minority-owned business (YES), business purpose (Sells Products), and more.

*NAICS कोड सिस्टम का उपयोग संघीय सांख्यिकी एजेन्सियों द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रकाशित करने के लिए किया जाता है।

NAICS एक स्व-निर्दिष्ट प्रणाली है; कोई भी आपको NAICS कोड निर्दिष्ट नहीं करता है। इसका अर्थ यह होता है कि एक कंपनी उस कोड को चुनती है जो उनके प्राथमिक व्यावसायिक क्रियाकलाप का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है और फिर उनके कोड के लिए पूछे जाने पर इसका उपयोग करती है।

आपके NAICS कोड का पता लगाने के लिए, www.naics.com पर जाएं।

**व्यक्ति(यों) के पास व्यवसाय में स्वामित्व हित के 50% से अधिक का प्रत्यक्ष स्वामित्व है।

+एन.वाई.एस. प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।



खण्ड 6: प्रकटीकरण

किस जानकारी की आवश्यकता है?

1. क्या आवेदन की तिथि पर आपका व्यवसाय खुला और संचालित है?
2. क्या आपका व्यवसाय लाभकारी व्यवसाय के रूप में संगठित है?
3. क्या आप लागू संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों, विनियमों, संहिताओं और अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन करते हैं?
4. क्या आप जुलाई 15, 2020 से पर्व के किसी संघीय, राज्य या स्थानीय कर के देनदार हैं, और क्या आपके पास एक अनुमोदित चुकौती, आस्थगित करने की योजना है, अथवा उपयुक्त संघीय, राज्य, और स्थानीय कर प्राधिकरणों के साथ कोई समझौता नहीं है?
5. क्या आपका व्यवसाय लाभकारी स्वतंत्र कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में है, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है? (यदि आप “हाँ” में उत्तर देते हैं, तो कृपया आवेदन में अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर दें)
6. क्या आप सेवा-अक्षम पूर्व-सैनिक के स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं?
7. क्या आपका व्यवसाय एक कार्यकर्ता सहकारी के रूप में स्थापित है?
8. क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय का 50% से अधिक है, जिसमें अल्पसंख्यक या महिलाओं के स्वामित्व वाले, सेवा अक्षम पूर्व-सैनिक या पूर्व-सैनिक के स्वामित्व वाले व्यवसाय, या ऐसे समदायों में स्थित व्यवसाय शामिल हो सकते हैं जो मार्च 1, 2020 से पहले आर्थिक रूप से संकटग्रस्त थे (यू.एस. जनगणना के अनुसार)?
9. वर्ष 2019 के लिए वार्षिक सकल प्राप्तियां? (इसका आपके टैक्स रिटर्न से मिलान होना चाहिए)
10. वर्ष 2020 के लिए वार्षिक सकल प्राप्तियां? (इसका आपके टैक्स रिटर्न से मिलान होना चाहिए)
11. 2019 में आप कितने महीने के लिए काम कर रहे थे?
12. कोविड के दौरान, क्या आपके व्यवसाय को कोई कोविड-19 संबंधित आपातकालीन निधीयन प्राप्त हुआ है?
13. क्या आपको किसी एन.वाई.एस तकनीकी सहायता प्रदाता से कोई मदद या समर्थन प्राप्त हुआ है?

14. क्या आपको आन्तर्राष्ट्रीय असिस्टेन्स सेन्टर (ई.ए.सी) से कोई मदद या समर्थन प्राप्त हुआ है?
15. क्या आपको किसी सामुदायिक विकास वित्तीय संस्थान (सी.डी.एफ.आई.) से कोई मदद या समर्थन प्राप्त हुआ है?
16. क्या आपको किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई मदद या समर्थन प्राप्त हुआ है?
17. क्या आपको लघु व्यवसाय विकास केंद्र (एस.बी.डी.सी.) से कोई मदद या समर्थन प्राप्त हुआ है?
18. क्या वर्तमान में आपके व्यवसाय को तकनीकी सहायता समर्थन या मदद की आवश्यकता है?
19. क्या आपके व्यवसाय को वर्तमान में किसी ऋण की आवश्यकता है?

Disclosures

1) Are you in substantial compliance with applicable federal, state and local laws, regulations, codes and requirements? Please select an answer *

2) Do you owe any federal, state, or local taxes prior to July 15, 2020, or have an approved repayment, deferral plan, or in agreement with appropriate federal, state, and local taxing authorities? Please select an answer *

3) Is your business in the For-Profit Independent arts and cultural sector as defined above? Please select an answer *

4) Annual business revenue for 2019 (this should match your tax return) \$ Please enter your answer in numeric value *

5) Annual business revenue for 2020 (this should match your tax return) \$ Please enter your answer in numeric value *

6) Number of months in existence for 2019 Please select an answer *



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

खण्ड 7: पुष्टीकरण

निर्देश

आवेदन के अन्त में, आपके पास दो विकल्प होते हैं:

1. अपना आवेदन सहेजें और इसे बाद में पूर्ण करें: नहीं चुनें यदि आप बाद में अपना आवेदन सहेजना और पूर्ण करना चाहते हैं, तो नहीं चुनें और "सहेजें और बाद में जारी रखें" पर क्लिक करें। महत्वपूर्ण नोट: अनुदान के लिए विचार किए जाने हेतु आपके आवेदन को पूर्ण होना चाहिए।

2. अपना आवेदन पूर्ण करें और जमा करें: हाँ चुनें यदि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है और आप अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो "हाँ" चुनें और "जारी रखें" पर क्लिक करें। महत्वपूर्ण नोट: आपके आवेदन को एक बार प्रस्तुत करने के बाद आप अपना आवेदन संपादित नहीं कर पाएंगे।

यदि यह पुष्टिकरण संदेश दिखाई नहीं पड़ता है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके वेब ब्राउज़र पर पॉप-अप ब्लॉकर अक्षम कर दिया गया है।

Please confirm that the information provided is correct and you would like to submit your application by selecting "**Yes**" from the dropdown below and then clicking "Continue". Please note that once you click "Continue", you will no longer be able to edit your responses. Once you continue with your application submission, you will receive a confirmation message with further instructions.

If you would like to edit or complete your application later, then select "**No**" from the dropdown below and click "Save & Continue Later". Please check your email for your username and password to the Portal. You will be able to sign in and complete your application there.

Please select Yes or No ▾

सभी आवेदकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवेदन करने के 14 दिनों के भीतर अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें। आवेदन को 60 दिनों के भीतर परा करने एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने में विफल होने से आवेदन को निष्क्रिय माना जाएगा।



खण्ड 8: पुष्टीकरण संदेश

निर्देश

जब आपका आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाएगा तो आपको नीचे दिया गया संदेश प्राप्त होगा।


इसके आगे क्या अपेक्षा करें

आपको पोर्टल के लिए एक यूज़रनेम और पासवर्ड वाला एक अलग ई-मेल प्राप्त होगा। कृपया निम्नलिखित सभी चरणों को पूरा करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेन्शियल का उपयोग करें:

1. एक्टिवेट करें और पोर्टल में साइन-इन करें।
2. सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को एक स्वीकारने योग्य प्रारूप में अपलोड करें।
3. अपनी बैंक जानकारी लिंक करें जिससे हम आपके बैंक स्टेटमेन्ट को सत्यापित कर सकें और एक डायरेक्ट डिपॉज़िट को सेट-अप कर सकें। (यह केवल उन आवेदकों के लिए आवश्यक है जिन्हें चुना गया है)।

आपके खाते को सक्रिय करने और दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए, आपके यूज़रनेम एवं पासवर्ड हेतु

no-reply@mylendistry.com से प्राप्त होने वाले ई-मेल के लिए, अपने ई-मेल को Clutter, Junk, व Spam फ़ोल्डर सहित जांचें।



The screenshot shows a confirmation message from Lendistry. At the top, there are logos for Empire State Development and Lendistry, along with a "Select a Language" dropdown. On the right, there's a link to contact support at 877-721-0097. The main content area has a heading "CONFIRMATION MESSAGE – COMPLETED FILE". It thanks the user for submitting an application to the New York COVID-19 Small Business Recovery Grant, administered by Empire State Development (ESD) through Lendistry. It provides instructions for the next steps, including activating and signing into the portal, uploading required documents, and linking bank information for direct deposit. It also advises checking email for login credentials and documentation. Contact information for assistance is provided at the bottom.




खण्ड 9: अपना यूजरनेम और पासवर्ड खोजें

निर्देश

- हमारे पोर्टल हेतु आपके यूजरनेम और पासवर्ड के लिए, कृपया उस ई-मेल पते को जाचें जिसे आपने अनुदान आवेदन के “अपने आवेदन के साथ आरंभ करें” खण्ड में दर्ज किया था।

यदि आपको अपने इनबॉक्स में यह ई-मेल दिखाई नहीं देता है, तो कृपया अपने स्पैम और जंक फ़ोल्डरों को भी जाँचें।

- “लॉग-इन करने के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करके अपने खाते को एक्टिवेट करें।



आवेदन की स्थितियां पोर्टल में

(उनका क्या मतलब होता है और आपको क्या करना चाहिए)



Empire State
Development

Powered by
lendistry

कैसे पोर्टल में अपने आवेदन की स्थिति का पता करें

Grant Application
#DIR400022432
आवेदन इस हेतु किया गया: NYR

Incomplete
आपने अपनी अनुदान राशि का अनुमान यह लगाया है:
\$0.00

Grant Amount

[Edit Application](#)

अपूर्ण

इसका क्या अर्थ है: आपने एक ऑनलाइन आवेदन शुरू किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया।

आपको क्या करना चाहिए: पोर्टल में साइन-इन करें और आवेदन में सभी फ़ील्डज़ को पूरा करें। अनुदान के लिए विचार किए जाने हेतु आपको पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

Grant Application
#DIR400022432
आवेदन इस हेतु किया गया: NYR

Awaiting Selection Process
आपने अपनी अनुदान राशि का अनुमान यह लगाया है:
\$10,000.00

Grant Amount

[Upload Documents & Bank Info](#)

चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा में

इसका क्या अर्थ है: आपने एक परा आवेदन प्रस्तुत किया है और पात्रता के लिए हाल में इसकी समीक्षा की जा रही है।

आपको क्या करना चाहिए: अपने चयन निर्णय के बारे में सूचना के लिए अपना ईमेल देखें। सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को PDF प्रारूप में अपलोड करें। आपको आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए या तो चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा।

Grant Application
#DIR400022432
आवेदन इस हेतु किया गया: NYR

समीक्षा में, सत्यापन लंबित
आपने अपनी अनुदान राशि का अनुमान यह लगाया है:
\$10,000.00

Grant Amount

[Upload Documents & Bank Info](#)

समीक्षा में, सत्यापन लंबित

इसका क्या अर्थ है: आप कार्यक्रम की न्यनतम योग्यता आवश्यकताओं को परा करते हैं और आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए चयनित हैं। चयनित होने से धन की गारंटी नहीं होती है। Lendistry आपको आपके आवेदन के बारे में अपडेट के साथ ईमेल या कॉल करेगा।

आपको क्या करना चाहिए: Lendistry से संपर्क के लिए निगरानी करें। उनसे किसी भी अनुरोध को समय पर पूरा करें।



कैसे पोर्टल में अपने आवेदन की स्थिति का पता करें

Grant Application

#DIR400022432

आवेदन इस हेतु किया गया: NYR

आपका आवेदन चयनित नहीं था।

आपने अपनी अनुदान राशि का अनुमान यह लगाया है:

\$10,000.00

Grant Amount

Upload Documents & Bank Info

**नहीं
चयनित**

इसका क्या अर्थ है: आप कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता आवश्यकताओं को परा नहीं करते हैं और आपका आवेदन अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

आपको क्या करना चाहिए: अगर आपको लगता है कि आपका आवेदन गलती से अयोग्य हो गया था, तो कृपया सहायता के लिए हमारे कॉल सेंटर से संपर्क करें।

Grant Application

#DIR400022432

आवेदन इस हेतु किया गया: NYR

निष्क्रिय

आपने अपनी अनुदान राशि का अनुमान यह लगाया है:

\$10,000.00

Grant Amount

Upload Documents & Bank Info

निष्क्रिय

इसका क्या अर्थ है: आपने आवेदन शुरू किया है लेकिन 60 दिनों के भीतर उसे परा करने में और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में विफल रहे हैं। आपके आवेदन को निष्क्रिय माना गया है और इसकी समीक्षा अब और नहीं की जाएगी।

आपको क्या करना चाहिए: यदि आप आवेदन प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया अपने आवेदन को पुनः सक्रिय करने के लिए कॉल सेंटर से संपर्क करें।



दस्तावेजों को अपलोड करना

पोर्टल में दस्तावेजों को किस प्रकार अपलोड करें



NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY

Empire State
Development

Powered by
lendistry

पोर्टल, एक दृष्टि में

महत्वपूर्ण नोट

आरंभ करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके दस्तावेज़ सही तरीके से अपलोड किए गए हैं, कृपया निम्नलिखित नोट्स की समीक्षा करें:

- बैंकिंग जानकारी की आवश्यकता केवल तब होती है जब आपको फंडिंग के लिए अनुमोदित किया जाता है।
- यदि कोई दस्तावेज़ आपके व्यवसाय पर लागू नहीं होता है, तो कृपया N/A चुनें।
- सभी दस्तावेज़ों को PDF फाइल में प्रस्तुत करना होगा। PDF फाइल 15MB से कम की होनी चाहिए। एकाधिक पृष्ठों वाले दस्तावेज़ों को एक (1) PDF फाइल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**
- फाइल के नाम में विशेष वर्ण (यानि ~!@#\$%^&*()_+) शामिल न करें। हमारा पोर्टल विशेष वर्णों को नहीं पहचानेगा।
- यदि आपकी फाइल पासवर्ड द्वारा संरक्षित है, तो आपको इसे पोर्टल में दर्ज करना होगा।

The screenshot shows a user interface for uploading documents. At the top, there are tabs for 'UPLOAD DOCUMENTS' and 'BANK INFO'. Below this, a section titled 'Your business is a Corporation' with a 'Change business type' dropdown set to 'Corporation'. A note says: 'IMPORTANT NOTE: To avoid error please do not open multiple tabs.' A message at the bottom of the page reads: 'Please upload each document under the corresponding category listed below.' Below this, there's a note: 'If a document does not apply to your business, check the box marked N/A. Banking information only needs to be provided by applicants who are approved for a grant or applicants who want to show all status items as completed.' A table lists several document categories with their status: Application Certification (Completed), Government Issued Photo ID/ITIN CP565 (Pending), 2019 Business Tax Return (Pending), 2020 Business Tax Return (Pending), Proof of Business Location (Pending, N/A), NYS 45 (Pending, N/A), and Completed IRS Form 4506 C (only if requested by Lendistry) (Pending, N/A).

सभी आवेदकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवेदन करने के 14 दिनों के भीतर अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें। आवेदन को 60 दिनों के भीतर परा करने एवं सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करने में विफल होने से आवेदन को निष्क्रिय माना जाएगा।



पोर्टल में दस्तावेज़ों को किस प्रकार अपलोड करें

निर्देश

चरण 1: एक दस्तावेज़ प्रकार चुनें और उसके फोल्डर को विस्तारित करने के लिए डाउन ऐरो पर क्लिक करें।

Please upload each document under the corresponding category listed below.

If a document does not apply to your business, check the box marked N/A.
Banking information only needs to be provided by applicants who are approved for a grant or applicants who want to show all status items as completed.

Application Certification	COMPLETED
Government Issued Photo ID/ITIN CP565	Pending

चरण 2: आपके डिवाइस पर फाइल को लोकेट करने के लिए "ब्राउज़ करें" पर क्लिक करें। सभी दस्तावेज़ों को PDF फ़ॉर्मेट में प्रस्तुत करना होगा।

Government Issued Photo ID/ITIN CP565

Please upload document for government issued photo id/itin cp565

BROWSE...

Note: File size should be less than 15MB. If needed, multiple documents can be uploaded.
Please do not use special characters in the title of the document (e.g., !@#\$, etc.)

चरण 3:

- यदि आपका दस्तावेज़ पासवर्ड द्वारा संरक्षित है, तो ड्रॉप-डाउन मेनू से हाँ चुनें और पासवर्ड दर्ज करें।

New Documents

S.No.	Document Name	Password Protected?	Password (if required)	Delete
1	Government-Issued ID.pdf	Yes	

- यदि आपका दस्तावेज़ पासवर्ड द्वारा संरक्षित नहीं है, तो ड्रॉप-डाउन मेनू से नहीं चुनें और पासवर्ड फ़ील्ड को रिक्त छोड़ दें।

New Documents

S.No.	Document Name	Password Protected?	Password (if required)	Delete
1	Government-Issued ID.pdf	No		

- अपलोड को पूर्ण करने के लिए "दस्तावेज़ अपलोड करें" पर क्लिक करें। दस्तावेज़ का स्टेटस पैंडिंग से पूर्ण हो जाएगा।

Government Issued Photo ID/ITIN CP565 *

Please upload document for government issued photo id/itin cp565

BROWSE...

Note: File size should be less than 15MB. If needed, multiple documents can be uploaded.
Please do not use special characters in the title of the document (e.g., !@#\$, etc.)

New Documents

S.No.	Document Name	Password Protected?	Password (if required)	Delete
1	Government-Issued ID.pdf	No		

UPLOAD DOCUMENTS

Previously Uploaded Documents

Title	Document Name	Preview	Delete
Government Issued Photo ID/ITIN CP565	Government-Issued ID		

आवेदक प्रमाणन

फॉर्म को कैसे डाउनलोड करें और पूर्ण करें



Empire State
Development

Powered by
lendistry

आवेदन प्रमाणन

आवेदन प्रमाणन क्या होता है?

आवेदन की प्रक्रिया के भाग के रूप में, आपको आवेदन प्रमाणन पर हस्ताक्षर करके जानकारी की सटीकता का स्व-प्रमाणन करने की आवश्यकता होगी।

आवेदन प्रमाणन आपके लिए डाउनलोड करने और पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होगा। एक हस्ताक्षरित आवेदन प्रमाणन इस अनुदान प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है और इसे पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी।

आप इस आवेदन प्रमाणन को दो तरीकों से पूर्ण कर सकते हैं:

- प्रमाणीकरण को डाउनलोड करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित कर सकते हैं या
 - फॉर्म को दस्ती रूप से प्रिंट करके पूर्ण कर सकते हैं।

यहाँ क्लिक करें आवेदन प्रमाणन को डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए।

आवेदन प्रमाणन पूर्ण करने के बाद, उसे पोर्टल पर अपलोड करें।

<p>NEW YORK STATE COVID-19 PANDEMIC SMALL BUSINESS RECOVERY GRANT PROGRAM</p> <p>APPLICANT CERTIFICATION</p> <p>In connection with the New York State COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program (the "Program") funded by the State of New York ("the State") and administered by the New York State Urban Development Corporation ("UDC"), the undersigned individual, entity, or organization ("the Applicant"), an authorized representative of the below-referenced applicant business (the "Applicant"), acknowledges and agrees on behalf of the Applicant, that the State, ESD, and ESD Capital, Inc. do/did/directly or indirectly own, control, manage, operate, or administer the Applicant's business, and that the State, ESD, and ESD Capital, Inc. are the legal certifiers in determining the Applicant's eligibility for receipt of a grant under the Program.</p> <p>By executing this document (the "Application Certification"), the Applicant hereby certifies all of the following (please check each box to the right of the certification statement):</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1. The undersigned certifies: (a) it is a duly authorized owner, representative or representative of Applicant; (b) except to the extent Applicant is a corporate business entity, holds at least 20% of the outstanding ownership interest in Applicant; and (b) he/she has full authority to make the certifications referenced herein. — 2. Applicant represents, warrants, and agrees that it has the full authority to make the certifications referenced herein. — 3. Applicant acknowledges and agrees that the State, ESD, and/or ESD Capital each receives the right to audit the financial records of the Applicant. Any audit of any part of the grants made herein is deemed to be fair and not otherwise. — 4. Applicant acknowledges and agrees that it will cooperate and will provide such information as is reasonably requested by the State, ESD, Lending, and/or either of their authorized designees, including, without limitation, the results of any audit, inspection, or request for compliance review. Such request may include, without limitation, documentation and other information regarding Applicant's business activities and/or financial information. — 5. Applicant acknowledges that the State, ESD, Lending, and/or either of their authorized designees, including, without limitation, the results of any audit, inspection, or request for compliance review, may limit to, Applicant's name, address, business activities, revenue information, and grant award amounts, any information provided to the State, ESD, Lending, and/or either of their authorized designees to make such public statements regarding Applicant for purposes of the foregoing. Applicant acknowledges that the State and ESD are subject to the New York Freedom of Information Law and are required to provide such information upon request and disclosure. — 6. Applicant certifies that the Applicant is not, and will not be, eligible for a grant under any other program, including, but not limited to, that Applicant meets the definition of "Small Business," "Micro-business," and/or "For-profit Independent Arts and Cultural Organizations." New York State law is intended to limit the number of grants issued, so if the Applicant is successful in this application, the Applicant will not be eligible for a grant in New York State. — 7. Applicant is independently owned and operated, not dominant in its field, and employs one hundred or less persons. "Micro-business" means a business with a website in New York State, incorporated in New York State, and/or doing business in New York State, which is independently owned and operated, not dominant in its field, and employs ten or less persons. "For-profit independent arts and cultural organizations" means a business with a website in New York State, incorporated in New York State, and/or doing business in New York State, which is independently owned and operated, low-performance venue, promoter, production company, or performance-related business located in New York State specifically impacted by COVID-19 Health and Safety regulations (as defined below), and having one hundred or less full-time employees, excluding seasonal employees. — 8. Applicant is a currently viable Small Business, Non-Bank Lender, and/or For-profit independent Arts and Cultural Organization, as defined above, located in New York State, incorporated in New York State, and/or doing business in New York State, that began operations on or before March 1, 2019 and remains in operation as of the date Applicant submits its application (subject only to Applicant being temporarily closed due to the COVID-19 pandemic). Notwithstanding the above, if the State, ESD, and/or ESD Capital, Inc. agrees that Applicant's business has ceased, or at any time within three (3) months after the date of the grant award letter, the State, ESD, and/or ESD Capital, Inc. may terminate the grant. Applicant may be required to return all or any portion of any grant award funds. — 9. Applicant has experienced, and can and will provide satisfactory evidence of, loss of gross receipts as a result of the COVID-19 pandemic, or compliance with COVID-19 health and safety measures, which includes, but is not limited to, the "Safer at Home" Order, Executive Order 100-20, and Safety Protocol, "means any restrictions imposed on the operation of businesses by executive order, state or local government, or any other entity, or any other order, rule, or regulation issued in response to the COVID-19 pandemic, or any other state, rule, or regulation issued in response to the COVID-19 pandemic." See Section 102(18)(B). — 10. Applicant has read and agrees to each and all of the following: <ul style="list-style-type: none"> (a) Applicant had 2019 or 2020 gross receipts of between \$25,000 and \$2,500,000 per annum, as reflected on Applicant's Federal Tax Return for 2019 or 2020, respectively, or as reflected on Applicant's 2020 federal tax return. (b) Applicant has not received any grants from the Paycheck Protection Program ("PPP"). (c) Applicant has not received any grants from the Economic Injury Disaster Loan ("EIDL") program. (d) Applicant's 2020 total sales, as reflected on Applicant's 2020 federal tax return, exceed the aggregate amount of grant funds Applicant is eligible for under this Program. — 11. Applicant is in substantial compliance with applicable federal, state, and local laws, regulations, codes, and requirements. 	<p>independently owned and operated, not dominant in its field, and employs one hundred or less persons. "Micro-business" means a business with a website in New York State, incorporated in New York State, and/or doing business in New York State, which is independently owned and operated, not dominant in its field, and employs ten or less persons. "For-profit independent arts and cultural organizations" means a business with a website in New York State, incorporated in New York State, and/or doing business in New York State, which is independently owned and operated, low-performance venue, promoter, production company, or performance-related business located in New York State specifically impacted by COVID-19 Health and Safety regulations (as defined below), and having one hundred or less full-time employees, excluding seasonal employees.</p> <p>— 11. Applicant does not own any federal, state, or local taxes that remain due for any period prior to July 15, 2020, unless such outstanding balance is covered by an unpaid repayment plan, deferral plan, or other applicable agreement with the appropriate federal, state, or local taxing authority.</p> <p>— 12. Applicant has either: (a) not applied for any business grant assistance programs under the Federal American Rescue Plan Act of 2021, or (b) any other available federal COVID-19 economic recovery or business assistance grant programs, including loans forgivable under the federal Paycheck Protection Program ("PPP"), or any other state or local COVID-19 economic recovery or business assistance programs, provided, however, that Applicant will not be disqualified from this Program if they have applied for any of the following: <ul style="list-style-type: none"> (a) United States Small Business Administration ("SBA") Paycheck Protection Program loans; (b) COVID-19 Economic Injury Disaster Loan ("EIDL") Advance Grant of \$10,000 or less; (c) COVID-19 EIDL Supplemental Targeted Advance Grant of \$5,000 or less; or (d) SBA Paycheck Protection Program loans. </p> <p>Applicant acknowledges that Lending may verify such information based on the information and documentation provided by Applicant, including, without limitation Applicant's bank statements and other financial documentation.</p> <p>— 13. Applicant's business is currently operational and Applicant is not restricted by any state, local, or federal law from operating.</p> <p>— 14. If awarded, grant funds will only be used to cover one or more of the following COVID-19 related expenses incurred by Applicant between March 1, 2020 and April 1, 2021: <ul style="list-style-type: none"> (a) payroll costs; (b) rent, mortgage, utilities, or equipment payments for property located in the State, excluding any rent or mortgage payments; (c) wages, salaries, or property or school taxes associated with a small business location within the State; (d) utility costs; (e) attorney fees relating to defending, ventilating, and air conditioning; (f) supplies and materials necessary for compliance with COVID-19 health and safety protocols, including personal protective equipment, cleaning supplies, and other equipment necessary to protect the health and safety of workers and consumers; (g) employee retention credits; (h) other documented costs related to COVID-19, as approved by ESD. </p> <p>— 15. If awarded, no portion of the grant funds will be used for any purpose other than those listed in Section 14 above. Specifically, no portion of any awarded grant funds will be used to repair or pay down any existing debt, to make any capital investment, to make any payment to a shareholder, to make any payment to a creditor, or to make any payment to a business consultant or advisor or any State business assistance programs. Applicant acknowledges and agrees that if (a) any portion of grant funds are used for any unauthorized purpose, the State may hold the underlying grant funds, or (b) any other owner (other than ESD) fails, including, but not limited to, possible charge of fraud.</p>
--	---

<p><u>16.</u> Applicant certifies and agrees that Applicant is not one or more of the following businesses deemed helpful to receive a grant under the Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) a non-profit organization; (b) a church or other religious institution; (c) an entity that has a political office; (d) a business primarily engaged in political or lobbying activities; (e) a business that received one or more awards pursuant to the SBA Restaurant Revitalization Grant Program; (f) a landlord or rental passive real estate business; (g) a business that engaged in any activity that is illegal under federal, state or local law; and/or (h) any other industry or sector as specified by the State, ESD, and/or Lending Entity. <p><u>17.</u> No person or persons that are or may be involved in this grant application is (a) has written prior threat(s) or communication(s) or has had a court judgment rendered against such person, or (b) has commenced any form of parole or probation (including probation before judgment), or (c) commences or continues to commit any offense(s) or violation(s) of federal, state, or local laws, or performing a public, federal, state or local transaction or contract under a public transaction, (d) violation of federal or state and local procurement statutes, or (e) commission of embezzlement, or (f) has been convicted of a felony or any offense involving false statements, or (g) receiving stolen property; or (h) is presently indicted for or otherwise criminally or civilly charged by a government entity, federal, state or local, with commission of any of the offenses listed in paragraph (a) above.</p> <p><u>18.</u> Applicant represents and warrants that any and all demographic information (to the extent Applicant has elected to provide such information), including, if applicable, information with respect to gender, race, ethnicity and economic disadvantaged status, is true and accurate provided by Applicant in connection with the execution of this Agreement, its time and expense.</p> <p><u>19.</u> Applicant has and will not apply for or receive any other grants through the Program. Applicant agrees that if more than one award is issued to Applicant, then one or all awards will be available at the discretion of the State, ESD, Lending, and/or their designees.</p> <p><u>20.</u> Applicant acknowledges that Applicant's eligibility for the Program and any grant award will be determined by the State, ESD, and Lending Entity based on the information provided by Applicant, and that the State and ESD will rely on such determination and tax and other documentation provided by Applicant in connection with the Program. Applicant represents and warrants that all documentation, <u>paperwork</u>, and information provided by Applicant and in connection with Applicant's application under this Program are true, accurate and complete. Applicant further represents and warrants that if any tax return information is provided by Applicant has made or will make any material misrepresentations in connection with the Program, then the State, ESD, and Lending Entity will have the right to require that the tax return information it will provide in connection with the Program is identical to the tax return information submitted to the Internal Revenue Service. Applicant understands, acknowledges, and agrees that the State, ESD, and Lending Entity will not be liable for any damages resulting from the Program, and the State, ESD, and Lending Entity, including without limitation, ESD, may share such tax and other information with local, <u>federal</u> and federal authorized representatives, including without limitation for the purpose of compliance with federal, state, or local laws and regulations.</p> <p><u>21.</u> Applicant acknowledges that the State, ESD, and Lending are relying on these certifications regarding the use of potential funds, business eligibility, owner information and financial need to determine whether to award funds to the business. The State, ESD, and Lending may rescind these certifications if good faith <u>[§ 89(2)(B)(v)(B)(ii)]</u> the Applicant's business activity.</p> <p><u>22.</u> Applicant certifies and agrees that all representations, warranties, certifications, and acknowledgments contained in this Application Certification are true and correct, and (b) that the State, ESD, and/or Lending Entity may demand the return of all or any portion of any grant funds received by Applicant. Applicant will be responsible for all costs and expenses incurred by the State, ESD, and/or Lending with respect to the collection of the return of such grant funds, including, without limitation, attorneys' fees.</p>	<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Signature _____</p> <p>Printed Name _____</p> <p>Applicant Business Name _____</p> <p>Applicant Business Address _____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Date _____</p> <p>Title _____</p> <p>EIN #/SSN #/ITIN # _____</p> </div> </div> <hr/>
---	--



Empire State
Development

Powered by
lendstru

आवेदन प्रमाणन को कैसे डाउनलोड करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्ण करें


निर्देश

चरण 1: [यहाँ क्लिक करें](#) आवेदन प्रमाणन को देखने के लिए।

चरण 2: अपने कंप्यूटर पर आवेदन प्रमाणन डाउनलोड करने के लिए  आइकन पर क्लिक करें।




चरण 3: प्रमाणन को अपने डेस्कटॉप पर सहेजें।



चरण 4: अपने डेस्कटॉप पर जाएं, आवेदन प्रमाणन का पता लगाएं और वहाँ से फ़ाइल खोलें।



चरण 5: आपका आवेदन प्रमाणन एक PDF फ़ाइल के रूप में खुलेगा। सभी क्रमांकित मर्दों के आगे अपने आद्याक्षर दर्ज करके और इसके बाद पृष्ठ 5 पर अपने हस्ताक्षर और व्यावसायिक जानकारी दर्ज करके आवेदन प्रमाणन को पूर्ण करें।



चरण 6: अपने पूर्ण रूप से निष्पादित आवेदन प्रमाणन को सहेजने के लिए फ़ाइल > सहेजें पर जाएं या अपने कीबोर्ड पर CTRL+S दबाएं।


चरण 7: पूर्ण आवेदन प्रमाणन को पोर्टल पर अपलोड करें।

आवेदन प्रमाणन को दस्ती रूप से प्रिन्ट करके पूर्ण करें

निर्देश

चरण 1: [यहाँ क्लिक करें](#) आवेदन प्रमाणन को देखने के लिए।

चरण 2: प्रिंटर के आइकन पर क्लिक करके आवेदन प्रमाणन को प्रिंट करें।



चरण 3: एक गहरे रंग की कलम और साफ लिखावट का उपयोग करके आवेदन प्रमाणन को भरें।

चरण 4: पूर्ण आवेदन प्रमाणन को स्कैन करें और पोर्टल पर अपलोड करें।



Empire State
Development

Powered by
lendistry

अपनी बैंक जानकारी को लिंक करना

(केवल तभी आवश्यक है जब आप अनुदान फन्डिंग के लिए स्वीकृत हों)



Empire State
Development

Powered by
lendistry

पोर्टल में अपनी बैंक जानकारी को किस प्रकार लिंक करें


Lendistry द्वारा अमेरिका में किसी भी बैंक या क्रेडिट यूनियन से Lendistry पोर्टल जैसी ऐप पर खातों को संयोजित करके ACH अंतरणों का सेट-अप करने हेतु एक तृतीय-पक्ष की प्रौद्योगिकी (Plaid) का उपयोग किया जाता है। तृतीय-पक्ष द्वारा आपकी निजी जानकारी को आपकी अनुमति के बिना साझा नहीं किया जाता है और इसे बाहरी कंपनियों को बेचा नहीं जाता है या किराये पर नहीं दिया जाता है। Plaid पर या उसके माध्यम से निजी जानकारी का उपयोग Plaid की एण्ड यूज़र प्राइवेसी पॉलिसी (<https://plaid.com/legal/#end-user-privacy-policy>) के अधीन है। Lendistry द्वारा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आपके बैंक स्टेटमेंट को सत्यापित करने और इसकी समीक्षा करने के लिए किया जाता है। बैंक सत्यापन की इस विधि को वरीयता दी जाती है, किन्तु यह स्वीकृत न हो सकता है, जैसे यदि आपका बैंकिंग संस्थान किसी प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। इस प्रकरण में, आप अन्य कार्य-विधियों का उपयोग करके अपने बैंक खाता को सत्यापित कर सकते हैं।

Lendistry के पोर्टल में Plaid के माध्यम से अपने बैंक खाता को किस प्रकार सत्यापित करें

चरण 1
चरण 2

चरण 1

- Plaid के लिए एक विण्डो को खोलने हेतु “अपना बैंक खाता लिंक करें” पर क्लिक करें।
- Plaid में जारी रखें और अपनी बैंकिंग संस्थान को छूँडें।
- अपने ऑनलाइन बैंकिंग खाते में साइन-इन करें और इसे Lendistry के पोर्टल से कनेक्ट करें।



चरण 2

आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सत्यापन विधि पर ध्यान दिये बिना यह चरण सदैव पूरा करना चाहिए।

- अपनी बैंक जानकारी प्रविष्ट करें।
- “व्यावसायिक खाते का नाम” फ़ील्ड आपके खाते का प्रकार नहीं है। यह फ़ील्ड आपके खाता का नाम के लिए है, जिसे आपके व्यवसाय के नाम पर होना चाहिए और आपके बैंक स्टेटमेंट में सूचीबद्ध होना चाहिए।
- यदि आपका व्यवसाय एकल स्वत्वधारी है, तो बैंक खाता अभी भी एक व्यवसाय चेकिंग खाता होना होगा और आपके नाम या DBA से मिलान होना होगा।



NEW YORK
STATE OF OPPORTUNITY
Empire State
Development

Powered by
lendistry

व्यवसाय बैंक खाता

- अपने आवेदन के साथ अंतिम स्वीकृति की ओर आगे बढ़ने के लिए अनुदान राशि जमा करने के लिए आपके पास एक व्यवसाय बैंक खाता होना आवश्यक है।
 - व्यवसाय बैंक खाता का आपके आवेदन और बैंक स्टेटमेंट्स में सूचीबद्ध व्यवसाय का नाम से मिलान होना होगा।
 - यदि आपका व्यवसाय एकल स्वत्वधारी है, तो बैंक खाता अभी भी एक व्यवसाय चेकिंग खाता होना होगा और आपके नाम या DBA से मिलान होना होगा।
- अपने व्यवसाय बैंक खाता के लिए किसी व्यक्तिगत बैंक खाते का उपयोग करना अस्वीकार्य है। इसमें कोई अपवाद नहीं है।
 - यदि आवेदकों को एक व्यवसाय बैंक खाता नहीं है, तो कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें ऐसा खाता खोलने की पुरजोर प्रोत्साहित किया जाता है।
- व्यवसाय बैंक खाता के बिना एक आवेदन प्रसंस्करण के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है और उसे अयोग्य किए जाने के जोखिम में डाल सकता है।

यदि आपके पास कोई व्यवसाय बैंक खाता नहीं है तो क्या करें

यदि आपके पास कोई व्यवसाय बैंक खाता नहीं है तो, हम आपको कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खाता खोलने के लिए कृपया अपने स्थानीय बैंक से संपर्क करें या किसी विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों ने इस कार्यक्रम के लिए आवेदकों के साथ काम करने की इच्छा का संकेत दिया है। यह सूची सर्व-समावेशी होने के लिए नहीं है, न ही यह संदर्भित किसी भी वित्तीय संस्थान का समर्थन करने के लिए अभिप्रेत है।

- पॉस बैंक स्थान
- स्प्रिंग बैंक स्थान
- कार्वर बैंक स्थान
- सीडीएफआई क्रेडिट यूनियन
 - वैकल्पिक फेडरल क्रेडिट यूनियन स्थान
 - ब्रुकलिन कोऑपरेशन फेडरल क्रेडिट यूनियन स्थान
 - लोअर ईस्ट साइड पीपल्स फेडरल क्रेडिट यूनियन स्थान
 - नेबरहुड ट्रस्ट फेडरल क्रेडिट यूनियन स्थान
 - सिराक्यूज कोऑपरेटिव फेडरल क्रेडिट यूनियन स्थान
 - न्यू कार्वेनन्ट डोमिनियन फेडरल क्रेडिट यूनियन स्थान
- स्वतंत्र बैंकर्स एसोसिएशन स्थान





Empire State
Development

Powered by
lendistry

आवेदन एवं भाषा सहायता 877-721-0097 या www.nysmallbusinessrecovery.com पर उपलब्ध है।